



युवक बिरादरी (भारत) द्वारा  
स्पर्धा - आविष्कार की नई पहल के साथ...  
व्यक्तित्व, नेतृत्व व दायित्व विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला  
एलोरा मीट - 2022  
(दिनांक 1 से 5 अक्टूबर - पेस सेंटर : एलोरा केव्स के सानिध्य में)

विगत 47 वर्षों से युवा क्षेत्र में कार्यरत , अपने नए - नए उपक्रमों द्वारा तरुणाई को विधायक मंत्र देने वाली संस्था युवक बिरादरी ( भारत ) अपने पारंपरिक निवासी कार्यशालाओं की आगामी श्रृंखला में इस बार 2 अभिनव स्पर्धात्मक योजनाओं को शामिल करते हुए उसे नया आयाम देने जा रही है | बिरादरी द्वारा अपनी सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से चार पूर्ण दिवसीय स्पर्धात्मक निवासी छावनी के रूप में इसका आयोजन दिनांक 1 से 5 अक्टूबर 2022 के बीच औरंगाबाद (महाराष्ट्र) जिले के विश्व सुंदर एलोरा परिसर में किया जा रहा है | उत्तम भोजन व स्वच्छ निवास के साथ व्यक्तित्व, नेतृत्व व दायित्व जैसे विषयों पर आधारित प्राथमिक प्रशिक्षण, ऑब्जेक्टिव / सब्जेक्टिव माध्यमों से लिखित परीक्षा, मुलाकात ,समूह - चर्चा व अभिरूप युवा संसद जैसे अनेकानेक कार्यक्रमों तथा गीत - संगीत - नृत्य - अभिनय व खुला मंच जैसे कलात्मक प्रसंगों से परिपूर्ण इस स्नेह कार्यशाला में निम्न दो नई स्पर्धात्मक योजनाएं युवा समूह के आकर्षण का केंद्र बिंदु बनेंगी जहां उन्हें आनंद और प्रशिक्षण प्राप्ति के अलावा विजेता के रूप में आकर्षक पुरस्कार राशि पाने का मौका प्राप्त होगा -

**स्पर्धा (1)** - आजाद हिंदुस्तान की विगत 75 वर्षीय कालावधि के दौरान अपनी विशिष्ट सोच, क्षमता एवं दूरदर्शिता के साथ एक नए राष्ट्र की निर्मिति हेतु रचनाकार की भूमिका में विकास पथ पर नए तीर्थ स्थानों का निर्माण करने वाले आधुनिक भारत के शिल्पकारों की सूची में शामिल भारत रत्न डॉ.विश्वेश्वरैया, होमी भाभा, राजा रामन्ना, वर्गिस कुरियन, स्वामीनाथन, विक्रम साराभाई, जे.आर.डी.टाटा, अजीम प्रेमजी, डॉ.अब्दुल कलाम, लक्ष्मणराव किल्लोस्कर तथा पद्मश्री विखे पाटील जैसे किसी भी महान कर्मवीर भारत- पुत्रों के जीवन से संबंधित कर्तव्य गाथाओं की व्याख्यान/ संभाषण एवं दृश्यश्राव्य रूपी चर्चात्मक प्रस्तुति अंतर्गत विद्यार्थी समूह को उनकी कर्तव्यनिष्ठ कर्तबगारी का शब्द रूप चि न करना होगा | जिसके लिए उन्हें निर्णायक मंडल द्वारा कुल 25 गुणों में से अनुकूल गुण प्रदान किए जाएंगे | जबकि...

**स्पर्धा (2)** - आज से करीब 25 वर्षों पश्चात् जब वर्तमान तरुण, पालक की भूमिका में होगा तब देश के महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित योजनाओं और कायदा - कानूनों के संदर्भ में भ्रमित, सहमी व सशक्त आज की

युवा पीढ़ी को वर्ष 2047 में आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से (1) रोजगार व स्वयं रोजगार विषयक नई नीति (2) भ्रष्टाचार मुक्त देश हेतु नए कायदे (3) कृषि व सामान्य किसानों के प्रश्नों को हल करती नई कृषि योजनाएं (4) बढ़ते शिक्षण प्रसार में अपेक्षित दायित्वों का संस्कार निर्माण करने वाली नीति ( 5 ) गरीब ज्येष्ठ नागरिकों की बढ़ती आबादी हेतु नई कल्याणकारी योजना (6) पर्यावरण के संदर्भ में वसुंधरा संरक्षण हेतु नई नीति (7 ) निजीकरण की दिशा में बढ़ते उद्योग - व्यवसाय जगत में गरीब व भूमि - पुत्रों को कम से कम 25% आरक्षण जैसे विविध 7 विषयों में से युवा विद्यार्थियों को किसी भी एक विषय पर करीब 1000 शब्दों में संकल्पनापूर्ण लेख तथा प्रत्यक्ष सादरीकरण करना होगा | जिसके लिए उन्हें निर्णायक मंडल द्वारा कुल 25 गुणों में से अनुकूल गुण प्रदान किए जाएंगे |

देश के किसी भी महाविद्यालय, सामाजिक संस्था अथवा उनके सौजन्य से भेजे गए, 16 से 25 आयु मर्यादा के युवा विद्यार्थी समूह, उपर्युक्त स्पर्धा कार्यशाला हेतु आमंत्रित, सहभागी व प्रतिस्पर्धी होंगे | दोनों ही स्पर्धाओं को मिलाकर (25 + 25) कुल 50 गुणों में से सर्वाधिक गुण पाने वाले प्रतिस्पर्धी युवा समूहों में से सर्वोत्कृष्ट 3 टीमों को क्रमशः ₹ 25,000, ₹ 15,000 व ₹ 10,000 की पुरस्कार धनराशि तथा ₹ 5,000 के पांच उत्तेजनार्थ पुरस्कार व गौरव पत्र प्रदान किए जाएंगे |

पद्मश्री क्रांति शाह की संकल्पना पर आधारित ,अध्यक्ष श्री अभिषेक बच्चन की संस्था द्वारा प्रथम फाउंडेशन के पेस सेंटर, औरंगाबाद में इस उपक्रम का आयोजन किया जा रहा है | इच्छुक महाविद्यालयीन अथवा सामाजिक संस्थागत विद्यार्थी समूह रजिस्ट्रेशन हेतु 31 अगस्त 2022 तक [www.biradari.org/](http://www.biradari.org/) [info@biradari.org](mailto:info@biradari.org) इस वेबसाइट या मेल पर अपना प्रस्ताव भेज सकते हैं | प्राप्त प्रस्तावों में से प्रातिनिधिक समूहों को इस स्पर्धा शिविर में सहभागी होने का अवसर दिया जाएगा |

प्रवेश व कार्यक्रम संबंधित सभी अंतिम अधिकार युवक बिरादरी (भारत ) के पास सुरक्षित होगा | प्रवेश शुल्क के रूप में 4 विद्यार्थी समूह हेतु ₹ 15 हज़ार तथा व्यक्तिगत प्रवेश हेतु ₹ 5 हज़ार की धनराशि अपेक्षित है |

## युवक बिरादरी (भारत) के लिए

देवेन्द्र सिंह  
(प्रकल्प संचालक)

ओमकार चव्हाण  
(प्रकल्प समन्वयक)

**Ashutosh Shirke, Devendra Singh, Adv.Sanjyot Wadhavkar**  
(Programme Director)

**Sachin Wakulkar, Pankaj Ingole, Prashant Waghaye**  
(Executive Coordinator)